

भारत-नेपाल सीमा के पास 1 करोड़ रुपये की अमेरिकी मुद्रा जब्त, दो लोग गिरफ्तार

नवभारतटाइम्स.कॉम | Mar 14, 2019, 11.15 PM IST



डीआरआई की टीम द्वारा बरामद करंसी

के कुल 1440 नोट बरामद हुए।

बहराइच

लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद यूपी में सतर्क डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने गुरुवार को बहराइच जिले में भारत-नेपाल सीमा के पास करीब 1 करोड़ रुपये की अमेरिकी करंसी बरामद की है। बहराइच के रुपईडीहा इलाके में हुई इस कार्रवाई के बाद विभाग की टीम ने दिल्ली के कुछ ठिकानों से भी अवैध मुद्राएं जब्त की हैं, जिसके बाद इस करंसी के साथ गिरफ्तार लोगों से कड़ी पूछताछ की जा रही है।

डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के बयान के मुताबिक, गुरुवार को विभाग की एक टीम ने दिल्ली के दो लोगों को लेडिज सूट के बैग के साथ नेपाल बॉर्डर के पास पकड़ा गया था। विभाग की टीम ने बताया कि शुरुआत में इन लोगों के पास मौजूद सामान की जांच की गई तो इसमें से कोई भी आपत्तिजनक चीज बरामद नहीं हुई। इसी बीच कुछ अफसरों ने उन डिब्बों की जांच की जिनमें यह लेडिज सूट पैक किए गए थे। इन डिब्बों को किनारे से फाड़ने के दौरान ही इनके अंदर अमेरिकी डॉलर दिखे, जिसके बाद इनकी जांच में अमेरिकी डॉलर

दिल्ली में भी हुई डीआरआई की छापेमारी

विभाग के मुताबिक, बरामद करंसी की भारतीय मुद्रा में कुल वैल्यू 1 करोड़ रुपये के आसपास है। पकड़े गए लोगों ने यह खुलासा भी किया है कि वह इस पैसे को लेकर दुबई जा रहे थे, जहां से इनके बदले सोना खरीदा जाना था। इसकी जानकारी के बाद डीआरआई ने दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित एक मकान पर भी छापे मारा, जहां से 2 करोड़ से अधिक की विदेशी करंसी और करीब 11 किलोग्राम सोना बरामद किया गया। डीआरआई के अधिकारियों के अनुसार, इस करंसी के जरिए सोने की तस्करी होने की बात सामने आई है। वहीं पकड़े गए लोगों पर कस्टम्स ऐक्ट 1962 के तहत मुकदमा दर्ज कर इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।